

>

MR. CHAIRMAN: There are 15 Members who wish to raise the matters of urgent public importance. If Members could finish making their points in one minute then only I will allow otherwise I will adjourn the House. I take it that all the Members will take one minute each.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): सदन स्थगित कर दीजिए, अच्छा है। एक मिनट में क्या बोलेंगे? स्थगित कर दीजिए तो हम चलेंगे। ...(व्यवधान)

Title: Need for strict implementation of Child Labour Act with a view to check exploitation of child labour in the country.

*m01

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): माननीय सभापति जी, हमारे देश में बाल श्रम की स्थिति बहुत गंभीर है। हमने बाल श्रम अधिनियम तो बना दिया किन्तु हमारे देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में 10 से 12 साल के जो बाल श्रमिक हैं, वे होटलों में, ढाबों में और चाय के स्टालों पर बहुत बड़ी संख्या में कार्य करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ मेरठ के पीतल उद्योग में, अलीगढ़ के ताला उद्योग में, फिरोजाबाद के काँच उद्योग में जहाँ 700 डिग्री सैन्टीग्रेड से 800 डिग्री सैन्टीग्रेड की हीट में बच्चों को काम करना पड़ता है; शिवाकाशी का पटाखा उद्योग, शिवाकाशी का मुद्रण उद्योग और शिवाकाशी का माचिस उद्योग; इन सबमें बहुत बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। इन बाल श्रमिकों का शोषण किया जाता है। उनको कम पैसा देकर उनसे बहुत अधिक काम कराया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश का हर बच्चा इस आश्वासन के साथ सोकर नहीं उठता कि जब वह उठेगा तो उसे भरपेट भोजन मिलेगा, और वह भी अपनी उम्र के बच्चों के समान स्कूल जा सकेगा। यह हमारे लिए, हम और आप सभी के लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि हमारे देश में हजारों की संख्या में जब बच्चे सुबह सोकर उठते हैं, जब हम सभी एसी और कूलर की हवा में सो रहे होते हैं, उस समय वे बच्चे एक बड़ा थैला उठाकर प्लास्टिक की पन्नी बीनने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। हमारी स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक हमारे देश की अगली पीढ़ी अपना बचपना खोकर चाय के स्टालों पर झूठे कप के बरतन धोने के लिए और सुबह से उठकर कूड़ा-करकट बीनने के लिए अभिशप्त है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बाल श्रमिकों का शोषण रोके तथा उनके पुनर्वास के कार्यों को गति प्रदान करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can just raise the issue.

...*(Interruptions)*